

प्रेस नोट दिनांक 21-12-2020

वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, थाना- हरपुर बुदहट, जनपद- गोरखपुर

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में व विपुल कुमार श्रीवास्तव पुलिस अधीक्षक दक्षिणी महोदय व योगेन्द्र कृष्ण नारायण क्षेत्राधिकारी खजनी के कुशल पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष प्रवेश कुमार सिंह के नेतृत्व में उ०नि० आशीष कुमार तिवारी मय पुलिस फोर्स के मु०अ०सं० 379/20 धारा 354 IPC व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु सिसवां तिराहे पर मौजूद था कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त दिनेश यादव उपरोक्त सिसवां माइनर नहर पुलिया पर मौजूद है कहीं भागने की फिराक में है यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है इस सूचना पर विश्वास करके सिसवा माइनर नहर पुलिया पर पहुंचा कि दूर से ही मुखबीर ने इशारा कर बताया कि साहब जो व्यक्ति सामने पुलिया पर नीले रंग का ट्रैक शूट लाल धारीदार पहने हुए खड़ा है वही दिनेश यादव उपरोक्त है मुखबिर इशारा कर हटबढ़ गया तत्पश्चात मैं उ०नि० मय हमराहियान के एक बारगी दबिश देकर उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया पकड़े गये व्यक्ति से नामपता पूछा गया तो उस व्यक्ति ने अपना नाम दिनेश यादव पुत्र स्व० रामकेवल यादव निवासी हरपुर उर्फ दुबरिया थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर बताया तत्पश्चात अभियुक्त दिनेश यादव उपरोक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए दिनांक 21.12.2020 को समय करीब 08.20 बजे बाजाफता हिरासत पुलिस में लिया गया तथा जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:-

1. दिनेश यादव पुत्र स्व० रामकेवल यादव निवासी हरपुर उर्फ दुबरिया थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर

अभियोग जिसमें गिरफ्तारी की गयी का विवरण:-

1. मु०अ०सं० 379/20 धारा 354 IPC व 7/8 पाक्सो एक्ट

अपराधिक इतिहास:-

मु०अ०सं० 379/20 धारा 354 IPC व 7/8 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तारी का स्थान व समय:-

सिसवां माइनर नहर पुलिया व दिनांक 21.12.2020 समय 08.20 बजे सुबह

गिरफ्तारी टीम के सदस्यगण:-

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. उ०नि० श्री आशीष कुमार तिवारी | थाना हरपुर बुदहट, जनपद गोरखपुर |
| 3. का० मनीष यादव | थाना हरपुर बुदहट, जनपद गोरखपुर |
| 4. का० विजय यादव | थाना हरपुर बुदहट, जनपद गोरखपुर |